



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 13, 2005/पौष 23, 1926

No. 37]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 13, 2005/PAUSA 23, 1926

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2005

का.आ. 48(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उपनियम (i) और नियम 4 के उपनियम (i) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन करती है और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- |  |  |
|--|--|
| 1. संघ के श्रम और रोजगार मंत्री,<br>भारत सरकार,<br>नई दिल्ली।                        | अध्यक्ष  |
| 2. सचिव,<br>श्रम और रोजगार मंत्रालय,<br>भारत सरकार,<br>नई दिल्ली।                    | उपाध्यक्ष<br>(पदेन)                                    |
| 3. अपर सचिव,<br>श्रम और रोजगार मंत्रालय,<br>भारत सरकार,<br>नई दिल्ली।                | सदस्य<br>(पदेन)<br>केन्द्रीय सरकार के<br>नामनिर्देशित। |
| 4. महानिदेशक (श्रम कल्याण),<br>श्रम और रोजगार मंत्रालय,<br>भारत सरकार,<br>नई दिल्ली। | सदस्य<br>(पदेन)  |

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 5. कल्याण आयुक्त,<br>भारत सरकार,<br>श्रम कल्याण संगठन,<br>797, शांति कुंज, साउथ सिविल लाइन्स,<br>जबलपुर-482001 | सदस्य<br>(पदेन) |
|--|-----------------|

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 6. कल्याण आयुक्त,<br>भारत सरकार,<br>श्रम कल्याण संगठन,<br>केन्द्रीय सदन, सुलतान बाजार,<br>हैदराबाद-500195 | सदस्य<br>(पदेन) |
|---|-----------------|

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 7. कल्याण आयुक्त,<br>भारत सरकार,<br>श्रम कल्याण संगठन,<br>162, एस. पी. मुखर्जी रोड,<br>कोलकाता-700026 | सदस्य<br>(पदेन) |
|---|-----------------|

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 8. कल्याण आयुक्त,<br>भारत सरकार,<br>श्रम कल्याण संगठन,<br>75, बासवेश्वर (मिलर्स) रोड,<br>बैंगलोर-560052 | सदस्य<br>(पदेन) |
|---|-----------------|

## बीड़ी विनिर्माताओं के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- |   |  |
|---|--|
| 9. श्री मुरलीधर जेलान,<br>अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन,<br>जीवल सहकार, चौथा तल,<br>सर पी. एम. रोड, फोर्ट,<br>मुंबई-400001 |  |
|---|--|

10. श्री रामानंद,  
अवैतनिक सचिव,  
अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन,  
जीवन सहकार, चौथा तल,  
सर पी. एम. रोड, फोर्ट,  
मुंबई-400001

11. श्री दालचंद जैन,  
मैसर्स भगवान दास शोभालाल जैन,  
चमेली चौक, सागर,  
मध्य प्रदेश-470002

12. श्री रवि गगरानी,  
मैसर्स ओंकारदास महादेव दास टोबैको—  
प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,  
दयानंद चौक, गृजरपुरा रोड,  
भोपाल, मध्य प्रदेश।

13. श्री रजनीकांत पी. पटेल,  
अध्यक्ष,  
अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग संघ,  
102, पापुलर हाउस, आश्रम रोड,  
अहमदाबाद-380009

14. श्री सुधीर भाई साबले,  
सचिव,  
साबले वधीर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,  
105, भवानी पेठ,  
पुणे-411042

15. श्री हितेन्द्र भाई उपाध्याय,  
एच. पी. बीड़ी कंपनी,  
राममंदिर, निजामाबाद,  
आंध्र प्रदेश।

#### कर्मचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

16. श्री सत्य नारायण दास,  
महासचिव,  
अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ,  
83/डी-776, सैक्टर 8,  
अभिनव विधानसी, कटक विकास प्राधिकरण,  
कटक, उड़ीसा।

17. श्री वी. गणेश बाबू,  
मकान नं. 2-10-108/ए,  
2-10-148 (नया),  
ज्योति नगर,  
डाक/जिला-करीमनगर,  
आंध्र प्रदेश।

18. श्री मोहम्मद निजामुद्दीन,  
सचिव,  
अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ,  
22-ए, लिटिल स्ट्रीट,  
कोलकाता-700014

19. श्री जोगेंद्रनाथ त्रिपाठी,  
महासचिव,  
हिंद मजदूर सभा,  
उड़ीसा राज्य परिषद,  
गुडीयानाली,  
डाकघर और जिला-धनकानाल,  
उड़ीसा-759001

20. श्री सत्यनारायण ठाकुर,  
सचिव,  
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,  
चंद्रशेखर भवन,  
मिथनपुरा,  
मुजफ्फरपुर,  
बिहार-842001

21. श्री अचित्थ सिन्हा,  
महासचिव,  
ऑल बंगाल बीड़ी वर्कर्स एम्पलाइज फेडरेशन,  
77/2/1, लेनिन सारणी,  
कोलकाता-700013

22. श्री मो. सिराजुद्दीन,  
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,  
चारबदन, गर्ल्स जूनियर कालेज के समीप,  
सिद्दी मेट,  
जिला मेडक,  
आंध्र प्रदेश।

23. श्रीमती तुला ठमा, सदस्य  
पतनी श्री टी. राजेन्द्र, महिला प्रतिनिधि  
मकान नं. 3-9-621,  
प्लॉट सं. 15,  
प्रगति नगर, पोस्ट जीएसआई,  
चितालकुंता, हैदराबाद-68

24. कल्याण आयुक्त (मुख्यालय) सचिव  
श्रम और रोजगार मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली-110011

2. इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[सं. यू-23012/01/2004-डब्ल्यू-II (सी)]

मनोहर लाल, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2005

S.O. 48(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) read with sub-rule (1) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government

hereby constitutes the Central Advisory Committee and appoints the following persons as Members of the said Committee for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

- |  |   |
|--|---|
| 1. Union Labour and Employment Minister, Government of India, New Delhi.   | Chairman  |
| 2. Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.   | Vice-Chairman (Ex-officio)                        |
| 3. Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.                                      | Member (Ex-officio) Nominee of Central Government |
| 4. Director General (Labour Welfare), Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.                         | Member (Ex-officio) Nominee of Central Government |
| 5. Welfare Commissioner, Government of India, Labour Welfare Organisation, 797, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur-482001. | Member (Ex-officio)                               |
| 6. Welfare Commissioner, Government of India, Labour Welfare Organisation, Kendriya Sadan, Sultan Bazar, Hyderabad-500195.       | Member (Ex-officio)                               |
| 7. Welfare Commissioner, Government of India, Labour Welfare Organisation, 162, S. P. Mukherjee Road, Kolkata-700026.            | Member (Ex-officio)                               |
| 8. Welfare Commissioner, Government of India, Labour Welfare Organisation, 75, Basaveswara (Millers) Road, Bangalore-560052.     | Member (Ex-officio)                               |

**Members representing manufacturers of Beedi :—**

- |  |  |
|--|--|
| 9. Shri Murlidhar Jalan, All India Manufacturers' Organisation, Jeevan Sahakar, 4th Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai-400 001. | 10. Shri Ramanand, Honorary Secretary, All India Manufacturers' Organisation, Jeevan Sahakar, 4th Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai-400 001.                             |
|  | 11. Shri Dalchand Jain, M/s Bhagwandas Shobhalal Jain, Chameli Chowk, Sagar (M.P.)-470002.   |
|  | 12. Shri Ravi Gagrani, M/s. Onkardas Mahadev Das Tobacco Products Private Limited, Dayanand Chowk, Gujarpura Road, Bhopal, Madhya Pradesh.                                 |
|  | 13. Shri Rajnikant P. Patel, President, All India Beedi Industry Federation, 102, Popular House, Ashram Road, Ahmedabad-380009   |
|  | 14. Shri Sudhirbhai Sable, Secretary, Sable Waghire & Company Private Limited, 105, Bhawani Peth, Pune-411042.   |
|  | 15. Shri Hitender Bhai Upadhyay, H. P. Beedi Company, Ram Mandir, Nizamabad, Andhra Pradesh.   |
| <b>Members representing workers :</b>  |  |
|  | 16. Shri Satya Narayan Das, General Secretary, Akhil Bharatiya Beedi Mazdoor Sangh, 83/D-776, Sector-8, Abhinab Bidanashi, Cuttack Development Authority, Cuttack, Orissa. |
|  | 17. Shri V. Ganesh Babu, H. No. 2-10-108/A, 2-10-148 (New), Jyothi Nagar, Post/District-Karimnagar, Andhra Pradesh.  |
|  | 18. Shri Md. Nizamuddin, Secretary, All India Beedi Workers Federation, 22-A, Lintol Street, Kolkata-700 014.  |
|  | 19. Shri Jogendranath Tripathy, General Secretary, Hind Mazdoor Sabha, Orissa State Council, At: Gudianali, Post Office and Dist. Dhenkanal-759001 (Orissa).               |

- |  |   |
|--|---|
| <p>20. Shri.Satya Narayan Thakur,<br/>Secretary,<br/>All India Trade Union Congress,<br/>Chandrasekhar Bhawan,<br/>Mithanpura, Muzaffarpur,<br/>Bihar-842001.</p> <p>21. Shri Achintya Sinha,<br/>General Secretary,<br/>All Bengal Beedi Workers Employees Federation,<br/>77/2/1, Lenin Sarani, Kolkata-700013.</p> <p>22. Shri Md. Shirazuddin,<br/>All India Trade Union Congress,<br/>Charwadan, Near Girls Junior College,<br/>Siddipet,<br/>Medak District,<br/>Andhra Pradesh.</p> | <p>23. Smt. Tula Uma,<br/>Wife of Shri T. Rajender,<br/>H. No. 3-9-621, Plot No. 15,<br/>Pragathi Nagar, Post GSI,<br/>Chintalkunta, Hyderabad-68.</p> <p>24. Welfare Commissioner (Headquarters), Secretary<br/>Ministry of Labour and Employment,<br/>Government of India,<br/>New Delhi-110011.</p> <p>2. The Headquarters of this Committee will be at New<br/>Delhi.</p> |
|--|---|
- [No. U-23012/01/2004-W. II (C)]
- MANOHAR LAL, Director General  
(Labour Welfare)/Jt. Secy.